

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली

Industrial Research & Development Unit

औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई

हौज खास, नई दिल्ली -110016

No. IITD/IRD/RP03438G/68934**Dated: 01/02/2019****Advertisement No.: IITD/IRD/018/2019**

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Title of the Project | Characterization of EMRG using Electromagnetic Modeling and Design of Rail Armature and Compulsator (JATC Sub Project # 12 under MI01618) (RP03438G) | |
| Funding Agency | DRDO, Ministry of Defence | |
| Name of the Project Investigator | Prof. Jitendra Prasad Khatait | |
| Deptt./Centre | Department of Mechanical Engineering | |
| Duration of the Project | Upto:10/09/2020 | |
| Post (s) | Consolidated fellowship / Pay-slab | Qualifications |
| Sr. Project Scientist (1) | Rs.45,000-48,200-51,400-55,400-59,400-63,400/- p.m. plus HRA @ 24% | 1 st class M.S. / M.Tech. in Mechanical Engineering. Atleast 10 years of work experience in machine design, development and testing. Preferably have 6 years of experience in leading projects and teams across various engineering disciplines. Should be able to design products and machines from first principles, both mechanical and electrical. |

The candidates who are interested to apply for the above post should download **Form No. IRD/REC-4** from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. **by e-mail with advertisement No. on the subject line to Prof. Jitendra Prasad Khatait at his email id: jpkhatait@mech.iitd.ac.in**

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the interview details. Only short-listed candidates will be informed. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact **Prof. J.P. Khatait at his email id: jpkhatait@mech.iitd.ac.in**

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा।

The last date for submitting the completed applications by e-mail is 15/02/2019 by 5.00 p.m. The shortlisted candidates who are called for interview should bring original certificates (both professional and academic) with a recent passport size photograph at the time of interview.

(वीरेंद्र कुमार वशिष्ठ)

सहायक कुल्सचिव, आईआरडी

वितरण

- Head of the Deptt./Centres/Units :
- Webmaster, IRD :
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. J.P. Khatait, PI, Department of Mech. Engg.
- Copy to Chairperson, DRC/CRC

It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit To put advertisement at IITD website.